



National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	Metropolitan Stock Exchange of India Ltd., Vibgyor Towers, 4 th Floor, Plot No. C62, G - Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla, Complex, Bandra (E), Mumbai – 400098
NSE Scrip Symbol: BLS	BSE Scrip Code: 540073	MSE Scrip Symbol: BLS

Subject: Public Notice for completion of dispatch of Notice of Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/ Ma'am

Pursuant to Rule 20 (4) (v) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the Company has published public notice as advertisement in Newspapers viz. The Financial Express (in English language with all edition) and in Jansatta (in Hindi language with Delhi Edition) confirming inter alia:

- 1. Completion of dispatch of Notice of 40th Annual General Meeting ('AGM') through e-mail on August 19, 2024, to all the members whose e-mail IDs are registered with RTA and Depositories i.e. NSDL and CDSL as on record date Friday, August 09, 2024.
- 2. Relevant date for voting through electronic means and e-voting information;
- 3. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting etc.

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of public notice(s) published in aforesaid newspapers today i.e. August 20, 2024.

The said public notice in newspapers has also been uploaded on the website of the Company at http://www.blsinternational.com

Kindly take the same on record. For **BLS International Services Limited**

Dharak A. Mehta Company Secretary and Compliance Officer ICSI Membership No.: FCS12878

Encl: as above

BLS International Services Limited CIN: L51909DL1983PLC016907

Read. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 Tel. No.: 011-45795002, Email: compliance@blsinternational.net,

Website: www.blsinternational.com

NOTICE OF 40™ ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that

The 40th Annual General Meeting ("40" AGM") of the members of BLS International Services Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 12, 2024 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the business as stated in the Notice of 40th AGM pursuant to the Companies Act, 2013 and various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, from time to time. All the Members are hereby informed that:

- . The Annual Report along with Notice of the 40" AGM for financial year ended March 31, 2024 and remote e-voting and e-voting at AGM details have been sent in electronic mode on Monday, August 19, 2024 to all the members whose e-mail are registered with RTA and Depositories as on August 09, 2024. The Annual Report along with Notice of 40" AGM is also available on the website of the Company www.blsinternational.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd. and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.msei.in respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 06, 2024 to Thursday, September 12, 2024 (both days inclusive) for taking on record the members of the Company for the purpose of 40" AGM of the Company and for final dividend.
- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder the Company is pleased to provide Remote e-voting and e-voting facility in 40° AGM to the members holding shares either in physical form or dematerialized form to cast their vote on the business as set forth in the Notice of the 40° AGM.
- The Cut-off date for the purpose of e-voting through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) is Thursday, September 05, 2024. The remote e-voting period commences on Monday, September 09, 2024 from 09:00 a.m. and ends on Wednesday, September 11, 2024 at 05:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Wednesday, September 2024. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. Thursday, September 05, 2024. may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with CDSL remote e-voting platform, then he/ she can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.
- The manner of e-voting remotely for members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of 40" AGM.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to 40" AGM may also attend the AGM through VC/ OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members are requested to read the instructions pertaining to joining 40" AGM, manner of casting vote through remote e-voting, e-voting during 40" AGM and attending 40° AGM through VC/OVAM as printed in the Notice of 40th AGM, carefully.
- In case you have any queries or issues regarding the E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or all grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
- 10. The Notice of 40" AGM is available on the Company's website i.e. www.blsinternational.com and CDSL's website at www.evotingindia.com.

Dharak Meht

bilt

For BLS International Services Limited

: 19.08.2024 : New Delhi Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No.: FCS12878

BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED CIN: L21010MH1945PLC010337

Registered Office: PO Ballarpur Paper Mills, Chandrapur Ballarpur - 442 901, Maharashtra.

E-mail: sectdiv@bilt.com; Telephone: +91 (022) 4000 2600 Website: www.bilt.com

NOTICE OF 75th (SEVENTY-FIFTH) ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 75th (Seventy-Fifth) Annual General Meeting ("AGM" of the Members of Ballarpur Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 10, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM") ONLY without the physical presence of members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. I accordance with the General Circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, May 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 ("MCA Circulars for General Meetings"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023, October 6, 2023 and October 7, 2023 ("SEBI Circulars for General Meetings"), the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year ended on March 31, 2020 on Monday August 19, 2024, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") and Depositories as on Friday, August 16, 2024. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars for General Meetings and the SEB Circulars for General Meetings. Any members who wish to obtain hard copy of Annual Report, may write to the Company for the same.

The Annual Report for the Financial Year ended on March 31, 2020 of the Company, interalia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 75th AGM is available on the website of the Company at www.bilt.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 4, 2024 till Tuesday, September 10, 2024 (both days inclusive)

for the purpose of AGM. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing the facility of remote e-voting as well as e-Voting during the AGM to all the members to cast their vote electronically on all the businesses as set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of NSDL, for providing the e-voting facility to the Members.

The remote e-voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Saturday, September 7, 2024 and shall end at 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 9, 2024, and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting. During this period, Members holding shares either in physical mode or in dematerialized mode, as on Tuesday, September 3, 2024, being the cut-off date, may cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic Voting system ("remote e-voting") of NSDL. All members of the Company are informed that: The Ordinary and Special Businesses as set forth in the Notice of the AGM will be

A person who has acquired shares and became a member of the Company after the sending of notice of AGM by e-mail and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and NSDL. However, if the person is already registered with Central Depository Services (India) Limited ('CDSL' / NSDL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used to

transacted only through voting by electronic means.

The Members may note that: a) The Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting system during the AGM; b) The members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; c) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC/ OAVM facility and e-voting during the AGM:

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or address the same to Mr. Anubhav Saxena, Deputy Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Karnala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013.

Mr. Viral Sanghavi, Proprietor of Viral Sanghavi & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting

Members holding shares in physical mode and who have not yet registered / updated

and e-voting during the AGM in fair and transparent manner.

their e-mail address are requested to register / update the same with RTA, M/s. RCMC Share Registry Private Ltd at B-25/1, Okhla Industrial Area, Phase -2, Near Rana Motors, New Delhi - 110020, e-mail id: investor.services@rcmcdelhi.com or to the Company at sectdiv@bilt.com by sending duly filled and signed Form ISR-1 (along with necessary supporting documents), which is uploaded on website of the Company at www.bilt.com or at RTA website at www.rcmcdelhi.com/download/Form%20ISR-1.pdf Members holding shares in dematerialized mode and who have not yet registered updated their e-mail address are requested to get their e-mail address registered. updated with their respective DP, by following the procedure of the respective DP. Members holding shares in physical mode and who are yet to register/update their bank account details are requested to get the same registered by sending duly filled and signed Form ISR-2, which is uploaded on website of the Company at www.bilt.com or at website of RTA at http://www.rcmodelhi.com/download/Form%20ISR-2.pdf along

dematerialized mode are requested to get their bank account details registered/updated with their respective DP, with whom they maintain their demat accounts For Ballarpur Industries Limited Punit A. Baja Company Secretary Place: Mumbai

Date: August 19, 2024

Membership No.: ACS 58392

with self-attested PAN card and Aadhaar card, cancelled cheque and copy of passbook to RTA of the Company at their registered address. Members holding shares in **DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LIMITED** Read, Office: "PGP House", New No.59 (Old No.57) Sterling Road.

Nungambakkam, Chennai 600 034. Tel. No. 91-44-28311313, Fax No. 091-44-28232074. CIN - L15421TN1987PLC014454 Email id: secretarial@dharanisugars-pgp.com, Website: www.dharanisugars.in

36th & 37th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 36th & 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 10th September 2024 at 11:00 AM & 3:00 PM respectively (IST) through Video Conference(VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business, as set in the notice of AGM, sent to the members by email. In view of the COVID- 19 pandemic, the Ministry of Corporat Affairs(MCA) has vide its circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 15, 2021 permitte the holding of the Annual General meeting (AGM) through VC/CAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the AGM of the company is also being he through VC to transact the business set out forth in the Notice of the AGM.

2. In compliance with above circulars, electronic copies of the notice of the AGM and annual report fo the financial year 2022-23 & 2023-24 has been sent to all the shareholders whose email addresse are registered with the Company / Depository participant(s) in the permitted mode on 16th August 2024. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 36th & 37th AGM and the Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circular. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobil numbers by clicking the https://investor.cameoindia.com with the Company's Register and Shar Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited or email to investor@cameoindia.com

5:Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20 of the Companies (Managem and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosu Requirements) Regulations 2015, the Company is providing remote e-voting facility (remote e-votin to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting platform provided by CDSL during the AGM) (E-Voting). Detailed procedure foe remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM. Members are informed that:

a. The cut-off date for the purpose of remote e-voting or at the AGM is 3rd September 2024. b. The remote e-voting shall commence on 07.09,2024 at 9.00 AM and shall end on 09.09.2024 at

5.00 PM after which e-voting platform shall be disabled by CDSL . Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast the vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. 1. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate

in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after th

Notice has been sent electronically by the Company and holds shares of the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to investor@cameoindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user id and Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the

Company can obtain Notice of the AGM, Annual Report and/or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including e-voting be sending scanned copy of (a) Copy of the signed request lettermentioning the folio number, name & address of the Member, (b) Self-attested copy of PAN card and (c) self-attested copy of any documents (e.g., Aadhar, Driving License, Election identit Card, Passport in support of the address of the Member by email to investor@cameoindia.com Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the meeting may pre

register themselves by sending a request from registered e-mail address mentioning their names, DPID

Client ID/Folio Number, PAN and mobile number to secretarial@dharanisugars-pgp.com 7 (seven

days prior to meeting. Only those members who have pre-registered themselves as speakers will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. The Board of Directors to the Company has appointed Mr. M.Damodaran. Practicing Company Secretaries. Chennal as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting at the AGM in a

fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's report shall be communicated to the stock exchange and will also be displayed on the Company websit www.dharanisugars.com within 48 hours from the conclusion of AGM. The notice of the 36th & 37th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 & 2023-24 will also be made available on the Company's website at www.dharanisugars.com, stock exchang

website to www.bseindia.com, www.nseindia.com and CDSL's website, at www.evoting.com An case of any queries relating to e-voting, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com Any grievance relating to e-voting facility, members may contact Mr P. Muralidharan, Manager, Cameo Corporate Services Limited, Subramaniam Building No.1 Club House Road, Chennai -600002, Tel 044-28460390 or email: investor@cameoindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulations 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 04th September 2024 to 10th September 2024 (both days inclusive): For Dharani Sugars and Chemicals Limited

Dr Palani G Periasamy By order of the Board Place: Chennai.

PLUS

FOCUS

OTRIX. L&B

FOCUS LIGHTING AND FIXTURES LIMITED CIN: L31500MH2005PLC155278

Near Udyog Bhawan, Goregaon (East), Mumbai - 400063, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 2686 5671-6; E-mail: info@pluslighttech.com; Website: www.focuslightingandfixtures.com PUBLIC NOTICE - 1974 ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the members of Focus Lighting And Fixtures Limited will be held on Wednesday, 11th September, 2024 at 2:00 P.M. at 11C, Laxmi

Industrial Estate, New Link Road, Opp. Fun Republic, Cinema, Andheri West, Mumbai - 400058,

Maharashtra to transact the ordinary and special businesses, as set out in the Notice convening the

Regd. Office: 1007-1010, Corporate Avenue Wing A, Sonawala Road,

Electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 have been sent to all Members whose e-mail ids are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid

ocuslightingandfixtures.com/focus_investor/financial_details/annual_report/Annual Report -2023-24.pdf and on the website of the National Stock Exchange i.e., www.nseindia.com

documents are also available on the Company's website

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Managemen and Administration) Rules, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited for facilitating e-voting to enable the Members to exercise their right to vote by the electronic means on all the proposed resolutions specified in the Notice of the 19th AGM of the Company. Resolutions passed by the Members through e-voting is/are deemed to have been passed as if it has/they have been passed at the AGM. All Members are hereby informed that:

- The cut-of date for determining the eligibility to vote by remote e-voting shall be Wednesday, September 04, 2024;
- The business, as set out in the Notice of AGM, shall be transacted through remote e-voting and the remote e-voting shall commence from Friday, September 06, 2024 (9.00 A.M. IST) and ends on Tuesday, September 10, 2024 (5.00 P.M. IST):
- Any person who acquires shares of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24 through electronic mode and is holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, August 16, 2024 may obtain the login id and password by sending a request at helpdask.evoling@cdsl.com. However, if a person is already registered with CDSL then the existing e-mail id and password can be used for casting the vote.
- Members may further note that: a) The remote e-voting modules shall be disabled by Bigshare Services Private Limited after
- 5.00 P.M. IST on September 10, 2024 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently,
- b) The facility for voting through Poll Paper shall be made available at the AGM,
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again,
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Poll Paper. The detailed procedure and instruction for remote e-voting are mentioned in the Notice of the 19
- vi. The Board of Directors in their meeting held on August 02, 2024 had recommended a dividend of
- Rs. 0.50/- per equity share of Rs. 2/- each for the year ended 31" March, 2024. The Company has further fixed record date as Friday, August 30, 2024 to determine eligible shareholders entitled to
- ii. The Company has appointed Mr. Mayank Arora (FCS No. F10378 CP No.13609), Practicing Company Secretary to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and the votes cast at the AGM shall be declared on or before September 12, 2024. The results shall be placed on the Company's website on www.focuslightingandfixtures.com n case of queries and grievances related to remote e-voting, Members may refer to Frequently Asked

Questions (FAQs) for Members and the e-voting user manual for Members available at the downloads section at https://www.evotingindia.com/Help.jsp. or call on toll-free number contact at 1800 22 55 33 (CDSL) who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For Focus Lighting and Fixtures Limited

Date: August 19, 2024 Place: Mumbai

Drashti Senjaliya Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ASHIKA

ASHIKA CREDIT CAPITAL LIMITED CIN: L67120WB1994PLC062159

Trinity, 226/1, A.J.C Bose Road, 7th Floor, Kolkata-700020 Tel: (033) 40102500; Fax: (033) 40102543

Email: secretarial@ashikagroup.com; Website: www.ashikagroup.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING This is with reference to our intimation dated 6th August, 2024 and

published on 7th August, 2024 in Regional and English Newspaper (All India Edition) wherein, Ashika Credit Capital Limited ("the Company") had issued Notice dated 31st July, 2024 (EGM Notice) for convening the (01/2024-2025) Extra-Ordinary General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Friday, 30th August, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Businesses mentioned in the EGM Notice.

In context of withdrawal of date of closure of Register of Members and Share Transfer Books of the Company, this Corrigendum to the EGM Notice is hereby given to the Shareholders that in page no. 8, point no. 7 to the Notes of Notice of EGM dated 31st July, 2024, as mentioned below, shall stand withdrawn:

7. Pursuant to the provisions of Section 91 of Companies Act

2013 and rules thereon, read with Regulation 42(5) of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 23rd Day of August, 2024 to Friday, the 30th Day of August 2024 (both days inclusive). Pursuant to the relevant MCA and SEBI Circulars, and the relevant

provisions of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corrigendum to the Notice of Extra Ordinary General Meeting has been dispatched on Monday, 19th August, 2024 through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered are registered with the Company/ the Depository All other information and content as set out in the EGM Notice dated

31st July, 2024 including the resolutions to be considered thereat remain unchanged. Members may note that the Corrigendum to the EGM Notice is available on the Company's website at www.ashikagroup.com at the weblink https://ashikagroup.com/investor_relation_details.php? category=preferential-allotment-of-securities and on the website of the Stock Exchange where the Company's Equity Shares are listed i.e

Accordingly, all the concerned Shareholders, Stock Exchange Depositories, Registrar and share Transfer Agent, Agencies appointed for e-voting. Other Authorities, Regulators and all other concerned persons are requested to take note of the aforesaid correction.

For Ashika Credit Capital Limited (Anju Mundhra) Date: 19.08.2024 Company Secretary FCS: 6686

UNITED CREDIT LIMITED CIN: L65993WB1970PLC027781

Place : Kolkata

Registered Office: 27B, Camac Street (8th Floor), Kolkata - 700 016. Telephone No. (033) 2287 - 9359/9360

Email: unitedcreditltd@gmail.com, Website: www.unitedcreditltd.com NOTICE is hereby given that the 53" Annual General Meeting (AGM) of the Members of

United Credit Limited will be held on Wednesday, the 25" day of September, 2024 at 11:00 A.M.(IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business set out at the Notice of the 53" AGM in conformity with General Circular 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 25" September, 2023 and SEBI Circular no SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7" October, 2023 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and all other applicable laws. The Notice of the 53" AGM along with the Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participant. Members may note that the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website www.unitedcredittd.com and on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and The Calcutta Stock Exchanges Limited at www.bseindia.com and www.cse-india.com.

Members can attend the AGM only through VC/OAVM, Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the provisions of the Companies Act; 2013 and Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all the members as on the cut-off date of Wednesday, 18" September, 2024 (end of day) to enable them to cast their votes electronically in respect of all business set out in the Notice of the 53" AGM. Accordingly, the company is also providing the facility for e-voting system at the AGM ("e-voting") Members who have not registered their email address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The instructions for remote e-voting joining the AGM and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialized and physical mode will be provided in the Notice of the

If your email address is already registered with the Company/Depository/RTA, Notice, Annual Report and login details for e-voting will be sent to your registered e-mail address. In case you have not registered your e-mail address, mobile no., and/or not updated your bank account mandate with the Company/Depository/RTA please follow the below mentioned instructions to register your email for receiving Notice, Annual Report, login details for e-voting and join the AGM through VC/OAVM.

Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

Place : Kolkata

Date: 20.08.2024

Physical Holding	Send a request to RTA of the Company i.e CB Management Services Limited, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata – 700001 in duly filed Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.unitedcreditltd.com as well as RTA's website i.e www.cbmsi.com . You can also send the Form No. ISR-1 to RTA's email id rta@cbmsi.com under copy marked to company at unitedcreditltd@gmail.com
Demat	Please contact your DP and register your email address and bank account

Holding details as per the process advised by DP. In case of any query, Members may contact or write to RTA at address & E-mail ID mentioned above under copy marked to the Company.

> For UNITED CREDIT LIMITED Sd/-

Deepali Gupta COMPANY SECRETARY (Membership No. A65652)

WESTLIFE FOODWORLD LIMITED [formerly known as Westlife Development Limited] Registered Office: 1001, Tower-3, 10th Floor,

One International Center, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400013 CIN: L65990MH1982PLC028593 Website: www.westlife.co.in

FINANCIAL EXPRESS

Email Id: shatadru@mcdonaldsindia.com Tel: 022 - 4913 5000 Fax No.: 022 - 4913 5001

shareholders of Westlife Foodworld Limited is scheduled to be held through Video

NOTICE OF THE FORTY-FIRST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, REMOTE E-VOTING AND E-VOTING Notice is hereby given that the Forty-First (41") Annual General Meeting ('AGM') of the

Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) on Wednesday, the 11th day of September, 2024 at 2.30 p.m. to transact the business as set out in the Notice of the The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder ('the Act'), provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Regulations'), and applicable sections of the Circular dated 25th September

2023 and General Circular No., 10/2022 dated 28th December, 2022, 2/2022 dated

5th May, 2022, 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular dated 5th January, 2023, 13th May, 2022, 13th January, 2021 and May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as 'the relevant circulars'). Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent on 19th August, 2023, through electronic mode only, to those Members whose email addresses are registered with the Company/Link Intime India Private Limited ('RTA')/

Depositories as on 9th August, 2023. The requirement of sending physical copy of the Annual Report has been dispensed with vide the relevant circulars/or will be available on demand/request of the shareholders. The e-copy of the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 are also available

- the website of the Company at www.westlife.co.in the website of the Bombay Stock Exchanges at www.bseindia.com and the National
- Stock Exchange at www.nseindia.com, and iii. the website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in
- In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), and Regulation 44 of the Regulations, and Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their rights to vote on the resolutions proposed to be passed at the 41" AGM by The Company has engaged the services of the RTA for providing the e-voting facility (both

before the 41st AGM (remote e-voting) from any place and during the 41st AGM (e-voting at During the 41st AGM, Members may access the scanned copy of the statutory documents including Register of Directors, Key Managerial Personnel and their shareholding maintained

under Section 170 of the Act and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Act on the website of the company at westlife.co.in at the link given below: http://westlife.co.in/investors-compliance-and-policies.php

M/s MSDS & Associates (Registration No.: P2020MH084300), practicing Company Secretaries, have been appointed by the Company as Scrutinizer for 41st AGM related

natters of the Company.

All members are hereby informed that: A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, 4th September, 2024 i.e. cut-off date shall be entitled to vote on the Resolutions set for the in the

Any person who acquired shares of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 4th September, 2024, may follow the procedure for remote e-voting as mentioned in detail in the Notice. Also a request may be sent to enotices@linkintime.co.in for obtaining the login ID and password. However, if already registered with instavote for e-voting, existing User ID and password can be

The remote e-voting period will commence on Sunday, 8th September, 2024 at 9.00 am and end on Tuesday, 10th September, 2024 at 5.00 pm. The remote e-voting will be disabled for voting thereafter by the RTA.

During the period, Members of the Company as on cut-off date i.e. Wednesday, 4th September, 2024, holding shares in physical or dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the same cannot be modified subsequently by such Member

In addition, the facility for e-voting shall be available during the 41st AGM and Members attending the AGM who have not cast their votes through remote e-voting shall be

Members who have already cast their votes through remote e-voting facility may participate in the AGM, however shall not be allowed to vote at the AGM.

ii. Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be

passed on the date of the Meeting, i.e. 11th September, 2024. riii. In case members have any queries or issues regarding the e-voting facility, they may refer to the frequently asked questions and e-voting manual available at https:// instavote.linkintime.co.in/ (under help section) or contact Mr Rajiv Ranjan at phone

no. 022-4918 6000 or write an email to enotices@linkintime.co.in. x. Details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting are:

i) Name : Rajiv Ranjan ii) Designation : Assistant Vice President, e-voting

Link Intime India Pvt. Ltd Address

enotices@linkintime.co.in iv) Email Id +91 22 49186000 v) Phone No.

demat account number/folio number, email id and mobile number at the email id shatadru@mcdonaldsindia.com uptil 5.00 pm on 9" September, 2024. In the interest of efficiency of the meeting, only the first 10 (ten) Speakers on a first-come-first-served basis will be allowed to express their views during the meeting. Shareholders who would like to ask questions are urged to send in their questions in

Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting

may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name,

writing in advance at the email id shatadru@mcdonaldsindia.com, mentioning their name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The same will be replied to by the Company suitably. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM

through remote e-voting or e-voting at the AGM. Further, pursuant to Regulation 47(2) of the Regulations, the said notice is also available on the Company's website at http://www.westlife.co.in/investors-compliance-and-

and in particular the instructions for joining the AGM, and the manner of casting vote

policies.php and also on the website of the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com respectively. By Order of the Board

Dr Shatadru Sengupta Company Secretary Membership No.: FCS 4583

Place: Mumbai

Date: 19th August, 2024



New Delhi

जनसता



Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur भारतीय अभिवांत्रिकी विज्ञान एवं धौतोजिकी संस्थान, विश्वपूर बाउर्वीय शकीयन विकास ४२: इपुक्रिकिशा शक्तिका पित्रपुत्र

(An Institution of National Jesportance under 210£, Gove. of India)

विज्ञापन संख्या- आर ओ/ए य/२४/०८ दिनांकः १९.०८.२०२४ इंस्टीट्यूट स्पॉट राउंड का एम.टेक./एम. प्लान / एम. एससी २०२४ में प्रवेश के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड, जमा करने की समय सीमा, सीट मैट्रिक्स और अन्य विवरणों के लिए

एम.टेक./एम.प्लान./एम.एससी में प्रवेश कार्यक्रम, शैक्षणिक सत्र २०२४-२६

कृपया www.iiests.ac.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2024 (दोपहर 3.00 बजे तक/ है।

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड सीआईएन: L51909DL1983PLC016907

पंजीकृत कार्यालयः जी-4बी-1, एक्सटेंशन मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्टियल एस्टेट, मथुरा मार्ग, नई दिल्ली — 110044 फोन नं: 011—45795002 ईमेल: compliance@blsinternational.net वेबसाइटः blsinternational.com

40वीं वार्षिक सामान्य बैठक और रिमोट ई-वोटिंग का नोटिस एतदवारा नोटिस दिया जाता है कि:

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("40वीं एजीएम") गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 को दोपहर 03:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीकियों कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से 40वीं एजीएम के नोटिस के व्यक्त किए अनुसार सामान्य और विशेष व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी। सभी सदस्यों को एतदहारा सुचित किया जाता है कि:-

- 1. उन सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 40वीं एजीएम का नोटिस और एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट 19 अगस्त, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोठ में उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है, जिनके ई-मेल 09 अगस्त, 2024 तक आरटीए और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। 40वीं एजीएम के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.blsinternational.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.msei.in पर और सेंट्रल डिपोंजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेंड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के सह पिठत सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, हम आपको एतदहारा सचित करते हैं कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी, ताकि कंपनी की 40वीं एजीएम के उद्देश्य से और अंतिम लाभांश के लिए कंपनी के सदस्यों को रिकॉर्ड में लिया जा सके।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके सहपठित निर्मित नियमों के अनुरूप, कंपनी को यह घोषित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि वह अपने उन सभी सदस्यों को जिनके पास भौतिक रूप में या ढीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हैं, उन सदस्यों को रिमोट ई—बोटिंग और ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है लाकि 40वीं एजीएम के गोटिस में निर्दिष्ट किए गये व्यवसाय के अनुसार वे बोट डाल सकें।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई–बोटिंग के प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि गुरुवार, 05 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-बोटिंग की अवधि सोमवार, 09 सितंबर 2024 की प्रात: 09:00 बजे से शरू होकर बुधवार, 11 सितंबर, 2024 की सांधः 05:00 बजे समाप्त कर दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को सांय: 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तब सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
- यदि किसी मामले में, कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस भेजने के बाद लेकिन अंतिम तिथि यानी गुरूवार, 05 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकता है। इसके अतिरिवत, यदि कथित सदस्य पहले से ही सीडीएसएल रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, तब वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता
- डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म, भीतिक मोड में वे शेयर धारक सदस्य और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग का तरीका 40वीं एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।
- जिन सदस्यों ने 40वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट डाल दिया है. वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे ।
- सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएन में शामिल होने के लिए, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, जो 40वीं एजीएम के नोटिस में छापे गये है।
- यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और सहायता अनुमाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई--वोटिंग मैन्अल का संदर्भ ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों का उल्लेख श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन पयुचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई – 400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल पर भेज दें या 022-23058542 / 43 पर फोन से संपर्क करें।
- 10, 40वीं एजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी www.blsinternational.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड हस्ता./-धारक मेहता

द एक: 19.08.2024 नई दिल्ली प्रपत्र जी

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी आईसीएसआई सदस्यता संख्याः एफसीएस12879

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिये निमंत्रण, हेत् फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता तथा अहमदाबाद में विविध उत्पादों के व्यापार में परिचालनरत् भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली २०१६ के विनियम ३६बी (६ए) के साथ पिरत विनियम ३६ए (१) के अंतर्गत)

	सुसंगत विवरण			
1.	सीआईएन के साथ निगमित देनदार का नाम	फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड सीआईएन : U05001MH1995PLC243081		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	709—सी विंग, वन बीकेसी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप व पास, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई— 40005 महाराष्ट्र, भारत		
3.	वेबसाइट का यूआरएल	http://www.frostinternational.in/		
4.	उस स्थान के विवरण, जहां स्थायी परिसंपत्तियां बहुतायत में अवस्थित हैं	मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, मेहसाण पाटन, तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली		
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की संस्थापित क्षमता	लागू नहीं		
6.	विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिचालन नहीं		
7.	कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या	7		
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूचियों, प्रक्रिया के उत्तरवर्ती आयोजनों हेतु संबंधित तिथियों सहित भावी विवरण यहां पर उपलब्ध हैं:	http://www.frostinternational.in/ अथवा विवरण cirpfil@gmail.com पर ईमेल करव देखे जा सकते हैं।		
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान	http://www.frostinternational.in/		
	आवेदकों की योग्यता यहां पर उपलब्ध हैः	अथवा विवरण cirpfil@gmail.com पर ईमेल करव देखे जा सकते हैं।		
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	04 सितंबर 2024		
11.	प्रस्तावित समाधान आवेदकगणों की अनंतिम सूची निर्गतन की तिथि	09 सितंबर 2024		
12.	तिथि			
13.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गतन की तिथि			
14.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों को जानकारी ज्ञापन, मूल्यांकन आव्यूह तथा समाधान नियोजन के अनुरोध के निर्गतन की तिथि	17 सितंबर 2024		
15.	समाधान नियोजन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17 अक्टूबर 2024		
44	() () () ()			

टिप्पणियाँ : (i) समग्र रूप से कॉर्पोरेट देनदार के लिए 10 अप्रैल, 2023 को एक अभिरुचि की अभिव्यक्ति निमंत्रित की गई थी और उक्त प्रक्रिया के दौरान कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद, भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 36बी (6ए) के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार की एक या अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए 18 जुलाई, 2023 को अभिरुचि की नई अभिव्यक्ति निमंत्रित की गई थी और जिसके प्रत्युत्तर में कई समाधान योजनाएं प्राप्त हुई थीं। इसके बाद, समाधान व्यवसायी ने सी.पी. (आईबी)/973(एमबी)2020 में इंटरलोक्यूटरी आवेदन संख्या आईए 2262/2024 प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के संबंध में लगाई गई कुर्की को हटाने/खाली करने के लिए कहा गया है, जो कि 28 जून, 2021 के अनंतिम कुर्की आदेश की विषयवस्तु है। उक्त आईए के संबंध में, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच ने 15 जुलाई, 2024 के अपने आदेश ("एनसीएलटी आदेश") में निम्नानुसार माना : "संहिता की 32ए (2) के प्रावधानों के मद्देनजर, हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों / संपत्तियों के संबंध में कुर्की आदेश, ऐसी योजना से निपटने वाले कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों / संपत्तियों के संबंध में समाधान योजना के अनुमोदन पर हटा लिया जायेगा / खाली हो जाएगा, बशर्ते कि ऐसी योजना को इस न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो और ऐसी योजना के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण में उस व्यक्ति में परिवर्तन न हो, जो संहिता की धारा 32ए(2)(**i / ii**) में निर्दिष्ट है")।

16. ईओआई जमा करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी cirpfil@gmail.com

उक्त एनसीएलटी आदेश के आलोक में, कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की समिति ("सीओसी") ने इस अभिरुचि के अभिव्यक्ति पत्र को जारी करने को मंजूरी दे दी है। (ii) ऊपर निर्दिष्ट समयसीमा को सीओसी द्वारा अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से संशोधित किया जा सकता है, जो कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता 2016 के तहत निर्धारित समग्र समयसीमा के अधीन है। समयसीमा में किसी भी ऐसे संशोधन का विवरण संभावित समाधान आवेदकों को विधिवत अधिसूचित किया जाएगा। कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी के इतिहास के बारे में विस्तृत पृष्ठभूमि के लिए, कृपया कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट http://www.frostinternational.in/ पर उपलब्ध इस फॉर्म-जी के साथ प्रकाशित ईओआई के लिए विस्तृत निमंत्रण देखें।

> अभित चंदकांत गाह फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के सीआईआरपी के प्रकरण में समाधान व्यवसायी

आईबीबीआई आईपी पंजीकरण सं. IBBI / IPA-001 / IP-P00821 / 2017-2018 / 11397 संचार ईमेल : cirpfil@gmail.com आईबीबीआई पंजीकृत पता : ए-74,

रूप दर्शन बिल्डिंग, जुहू क्रॉस लेन, सी. डी. बर्फीवाला मार्ग, न्यू इंडिया कॉलोनी के पीछे, अंधेरी परिचम, मुंबई 400058, भारत दिनांक : 20 अगस्त, 2024 आईबीबीआई पंजीकृत ईमेल पता : ipamitshah@gmail.com

FLORA TEXTILES LIMITED

Registered Office: No. 23, Bharathi Park Road, Coimbatore -641 043, Tamil Nadu, India; Tel: +91 22 2447395; Email: floratex1@gmail.com; Website: www.floratextiles.in; Corporate Identification Number: L17111TZ1993PLC004290

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Flora Textiles Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer made by Oilmax Energy Private Limited ("Acquirer"), to the Public Shareholders of the Target Company.

Date	August 19, 2024
Name of the Target Company	Flora Textiles Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations for acquisition of up to 15,60,000 (Fifteen Lakh Sixty Thousand) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹10/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the total voting share capital of the Target Company on a fully diluted basis, as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 10/- (Rupees Ten only) per Equity Share ("Open Offer")
Name of the Acquirers and PAC with the acquirer	Acquirer – Oilmax Energy Private Limited There are no PAC(s) with the Acquirer for the purpose of Open Offer.
Name of the Manager to the offer	Saffron Capital Advisors Private Limited 605, Sixth Floor, Centre Point, J. B. Nagar, Andheri (East).

Mumbai - 400 059: Tel. No.: +91 22 49730394; Email id: openoffers@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance id: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM 000011211 Contact Person: Ms. Pooja Jain/ Mr. Saurabh Gaikwad

Members of the Committee of a) Mr. Rahul Maheshwari (DIN: 07084721) - Chairperson Independent Directors ("IDC") b) Ms. Paval Bafna (DIN: 09075302) - Member IDC Member's relationship with the i). All the IDC Members are Non-Executive Independent Directors on the Target Company (Director, Equity shares owned, Board of the Target Company. any other contract / relationship), if any ii). Further, the members of IDC confirm that they do not hold any Equity Shares or other securities in the Target Company. iii). Other than their position as Directors of the Target Company, there are

no other contracts or relationship with the Target Company. Trading in the Equity shares/other securities of None of the IDC Members have traded in Equity Shares / other securities the Target Company by IDC Members of the Target Company during the: i). 12 (twelve) months prior to the date of Public Announcement (PA) dated May 15, 2024, and

ii), period from the date of the PA till the date of this recommendation IDC Member's relationship with the acquirer None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirers. (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any. Trading in the Equity shares/other securities of Not Applicable

the acquirer by IDC Members Recommendation on the Open offer, as to Based on the review, whether the offer, is or is not, fair and reasonable i) The IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹ 10/- per Equity Share is in line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations and the same is fair and reasonable: ii). However, IDC Members would like to draw the attention of the

shareholders that, the Equity Shares of the Target Company are trading on BSE at a price that is higher than the Offer Price; and iii) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis-à-vis current share price and take an informed decision before participating in the Offer. 1. The IDC Members have reviewed: Summary of reasons for recommendation

a) Public Announcement ("PA") dated May 15, 2024; b) Detailed Public Statement ("DPS") dated May 23, 2024, was published. on May 24, 2024; c) Draft Letter of Offer ("DLOF") dated May 30, 2024 d) Letter of Offer ("LOF") dated August 09, 2024; and 2. The IDC members also noted that: a)The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded in

terms of Regulations 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. b) The Offer Price is in accordance with Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) c)The Offer Price is higher than or equal to (i) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on May 15, 2024, and (ii) the price determined by the Acquirer and the Manager taking into account valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of

shares. Based on above, the IDC Members are of the view that the Offer Price of ₹10/- per Equity Shares is in line with the parameters prescribed by SEBI (SAST) Regulations. Disclosure of the voting pattern These recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.

Any other matter to be highlighted None Terms not defined herein carry the meaning ascribed to them in the Letter of Offer dated August 09, 2024. To be best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in Il material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the

Details of Independent Advisors, if any.

Date: August 19, 2024

information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

424900349, 424900350, 424900358, 424900364, F1845.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Flora Textiles Limited

Place: Coimbatore

Rahul Maheshwari Chairperson IDC DIN: 07084721 SBFC

एसबीएफसी फाइनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन 2002 के (नियम 8(2) के अनुसार)]

. जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण,पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह उधारकर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ु उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं राशि को चकाने में विफल रहें. उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे

उल्लिखित तारीखों को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर उल्लिखित राशि एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

संपत्ति (यों) का विवरण उधारकर्ताओं का नाम एवं और कब्जा नोटिस में मांगी पता और मांग नोटिस की तारीख और कब्जे की तिथि गई राशि (रु.) 1. श्री दुर्गा मोटर्स एंड टायर्स, गांव काकोदा आबादी (शहर क्षेत्र से बाहर) (पेट्रोल पंप काकोदा 10 अप्रैल 2024 तक 2. देवराज सिंह, बॉर्डर के पार), परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बूलंदशहर, रु. 23,73,103 ∕ − 3. राजेश देवी. उत्तर प्रदेश में स्थित संपत्ति प्लॉट नंबर 112 (पटवारी पत्र के (रुपये तेईस लाख सभी का पता, मकान नंबर 112, खेत नंबर 1174, गांव अनुसार) भूमि जिसका क्षेत्रफल 299.73 वर्ग गज यानि 250.60 वर्ग तिहत्तर हजार ककोड़, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश–203203 मीटर है. खेत नंबर 1174एम में से है वाली संपत्ति का वह सम्पर्ण एक सौ तीन मात्र) मांग नोटिस की तिथिः 16 अप्रैल 2024 टुकड़ा एवं अंश । ऋण संख्या कब्जे की तिथिः 18 अगस्त 2024 '4021060000213853-सी (पीआर01188291)

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है

दिनांकः 20.08.2024 गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

्हस्ता /-प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं / सह–ऋणकर्ताओं / गारंटरों ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विदित, चूँकि नाग पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वह 17 नवंबर 2023 से प्रभावी होकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में परिवर्तित हो चुका है) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तथा मूलतः जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमीकृत) यहां इसमें इसके उपरांत ''प्रतिभूत ऋणदाता'' के रूप में संदर्भित, से अपनी अचल संपत्ति / यों को बंधक रखकर संपत्तिगत सुविधा (ओं) के समक्ष आवास ऋण / ऋणानेक प्राप्त किए हैं। आपने प्रतिभुगतान में चूक की है और इसीलिए आपके ऋण / ऋणानेक खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना बकाया धनराशियों की वसूली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जो प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई है। अतः, उस सूचना की विषयवस्तु को, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उपाय द्वारा, यहां इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह—ऋणकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि के विवरण निम्नानुसार दिये

क्र.	ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्ता,	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	मांग सूचना तिथि	
सं.	गारंटर के नाम तथा ऋण राशि		देय राशि रु. में	
1.	नरेश चंद, आरती देवी ऋण राशि : रु. 11,50,000/— जिसमें रु. 5,00,000/— सम्मिलित हैं, ऋण खाता संख्या HF0303H21100177 के माध्यम से तथा रु. 6,50,000/— ऋण खाता संख्या HF0303H21100176 के माध्यम से	खसरा संख्या 1314 में से 58.52 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले स्वामित्वधारक आवासीय रिक्त भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश, जो आबादी सफीपुर, पट्टी माजरा बुढ़ाना परगना और तहसील बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। निष्पादित विक्रय विलेख में विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। विक्रय विलेख 06.07.2021 के अनुसार सीमाएँ— पूर्व:— गोरधन का प्लॉट, पश्चिम:— 11 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर:— मजासी का प्लॉट, दक्षिण:— 11 फीट चौड़ा रास्ता।	07/08/2024 ऋण संख्या : HF0303H21100177 रु. 5,72,623/— (रुपये पाँच लाख बहत्तर हजार छह सौ तेईस मात्र) साथ में 13% प्रति वर्ष की दर से पुनर्भुगतान तक अतिरिक्त ब्याज। ऋण संख्या : HF0303H21100176 रु. 7,22,362/— (रुपये सात लाख बाईस हजार तीन सौ बासठ मात्र) साथ में 13% प्रति वर्ष की दर से पुनर्भुगतान तक	
2.	मोहम्मद रशीद, सना ऋण राशि: रु. 21,25,000/— जिसमें रु. 5,25,000/— सम्मिलित हैं, ऋण खाता संख्या LAP0399200000005008572 के माध्यम से तथा रु. 16,00,000/— ऋण खाता संख्या HL00399200000005002788 के माध्यम से	आवासीय प्लॉट संख्या बी—167 के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका भूमि क्षेत्र 35 वर्ग गज यानी 29.26 वर्ग मीटर, जो खसरा संख्या 1304 में से, जवाहर पार्क, ग्राम पसोंदा के कॉलोनी क्षेत्र, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है (यहाँ इसमें इसके बाद "उक्त संपत्ति" संबोधित)। निष्पादित विक्रय विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं :- पूर्व- सड़क 10 फीट चौड़ी, पश्चिम—अन्य संपत्ति, उत्तर- मंजीत का घर, दक्षिण- गुप्ता का घर।	07/08/2024 ऋण संख्या : LAP0399200000005008572 रु. 5,90,956/— (रुपये पाँच लाख नब्बे हजार नौ सौ छप्पन मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 13% प्रति वर्ष की दर से अति. रिक्त ब्याज। ऋण संख्या: HL00399200000005002788 रु. 17,63,899/— (रुपये सत्रह लाख तिरेसठ हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 10.6% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।	

अतः आप ऋणकर्ता / ओं तथा सह—ऋणकर्ता / ओं / गारंटरों को इसलिये निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर यहां इसमें उपरोक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगी गई राशि का पूर्ण भूगतान कर दें। भूगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त वर्णित प्रतिभूति 🖊 यों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य–विवश होंगे। कृपया ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इस बीच प्रतिबंधित किया जाता है कि आप हमारी सहमति के बिना ऊपर—संदर्भित प्रतिभृतियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्ताँतरण नहीं कर सकेंगे। दिनांक : 20-08-2024 गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV ए) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 98, उद्योग विहार, फेज–४, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः ''ऑफिस नंबर 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, प्लॉट नंबर सी –1, सेक्टर – ४, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201010'' के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल— एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों / प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल– एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी हैजहा है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट :www.iiflonehome.com. पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओ) / सह— कर्जदार(ओ) / गारंटर(ओ)	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जे की तिथि	सुरक्षित मूल्य
 श्री सुभाष कुमार श्रीमती खुशबू सुभाष कुमार (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10118879) 	10—अक्टूबर—2023 रु. 18,53,620 / — (अठारह लाख तिरपन हजार छह सौ बीस रुपये मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 25,000 / — (पच्चीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जो आवासीय फ्लैट संख्या यूजीएफ—2, ऊपरी भूतल सामने बाईं ओर बिना छत के प्लॉट संख्या ए—2, खसरा संख्या—211, रेल विहार सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड, गांव सादुल्लाबाद परगना, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उप्र 201010 क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 513.00, 387.00, 500.00		रु. 11,77,000/— (रु. ग्यारह लाख सत्तहत्तर हजार मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,17,700/— (एक लाख सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र)
	त्ति के निरीक्षण की तिथि र— 2024 1100 बजे—1400 बजे	ईएमडी अंतिम तिथि 05—सितम्बर— 2024 2024 अप.		ो तिथि/समय 1100 बजे—1300 बजे

भुगतान का विधिः — ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप ीजजचेरूध्ध्रणपरिसवदमीवउमण्बवउ पर जाएं और केवल सम्पत्ति ∕ प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। नोटः हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति रप्रतिभृत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भूगतान के लिए – https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay पर लॉगिन करें।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा

तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आई डी और पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना"निविदा फार्म" ईएमडी के भूगतान विवरण, केवाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाखा कार्यालय में जमा / प्रेषित करना होगा। बोलीदाता अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि" में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय सफल बोलीदाता को बोलीराशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75

प्रतिशत राशि प्रतिभुत लेनदार द्वारा बिक्री की पृष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी सभी जमा और भगतान निर्धारित विधि से करने होंगे। खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसे कि म्यूनिसिपलकर, बिजली प्रभार, भृमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे। क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेनध्भगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

बोलीदाताओं कोई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।

विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवाप्रदाता की ई-मेल आईडी : care@iiflonehome.com, सपोर्टे हेल्पलाइननंबर : / 1800 2672 499 पर सम्पर्क करें। किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिंड इत्यादि के संबंध मेंपूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल : care@iiflonehome.com, को मेल लिखें।

एतदद्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। 10. एतदृद्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतढंग से बेचा जाएगा। 1. सफल बोलीदाता / नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी

राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी। 12. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा / नीलामी स्थगित / निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा / नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा । सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्ची के साथ निविदा / नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची / नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। स्थान : गाजियाबाद,, तिथि : 20–अगस्त– 2024 हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

MUTHOOT FINCORP LTD. सोने की नीलामी सूचना Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, In

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.

लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छडाने का समय बीत चका है तथा जिन्हें बार-बार सचना दिए जाने पर भी अब तक छडाया नहीं गया है उनकी नीलामी 27.08.2024 8 28.08.2024 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी। 1809001000: 1809001006: 1809001012; 1809001012; 1809001013; 1809001016; 1809001037; 1809001047; 1809001060; 1809001060; 1809001118; 1809001118; 1809001012; 18090010135; 18090010135; 1809001044; 1809001045; 18090 1809001167, 1809001169, 1809001172, 1809001173, 1809001174, 1809001174, 1809001184, 1809001197, 1809001205, 1809001205, 180900199, 18 262100220, 262100233, 262100235, 262100235, 262100245, 262100262, 262100262, 262100268, 262100268, 262100268, 262100368, 2 282100434, 262100455, 262100467, 262100467, 262100472, 262100475, 262100476, 262100476, 262100477, 262100476, 262100513, 262100513, 262100527, 262100513, 262100527, 262100513, 1457000169, 1457000183, 1457000195, 1457000201, 1457000201, 1457000202, 1457000212, 1457000221, 1457000222, 1457000223, 1457000224, 1457000237, 1457000237, 1457000238, 1457000288, 1457000 1457000322: 1457000329: 1457000334, 1457000342, 1457000342, 1457000342, 1457000342, 145700055, 145700055, 145700057, 145700057, 145700070, F12175, F12177, F12178, F12183, F12330. NORTH WEST DELHI DISTRICT - BAWANA: 4064000649, 4064000648, 4064000648, 4064000648, 4064000655, 4064000655, 4064000657, 4064000685, 4064000685, 4064000687, 4064000687, 4064000687, 4064000688, 4064000888, 406400088, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 4064000888, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400088, 406400 4064000689, 4064000694, 4064000695, 4064000695, 4064000700, 4064000704, 4064000704, 4064000704, 4064000750, 40640000750, 40640000750, 40640000750, 40640000750, 40640000750, 40640000750, 406400004064000864, 4064000868, 4064000876, 4064000877, 4064000910, 4064000910, 4064000910, 4064000910, 4064000928, 4064000928, 4064000928, 4064000936, 403300298, 403300313, 403300322, 403300345, 403300345, 403300346403300498, 403300499, 403300506, 403300506, 403300553, 403300579, 403300579, 403300594, 403300594, 403300661, 40300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 403300661, 4 424900177, 424900183, 424900204, 424900204, 424900221, 424900225, 424900225, 424900225, 424900225, 424900253, 424900254, 424900256, 424900256, 424900256, 424900270, 424

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 31.12.2023 and MSGB, SME Suvama & EMI due up to 30.06.2024 तक की अवधि के

Auction Date: 28.08.2024 + RANI BAGH: 0851000006, 0851000054, 0851000549, 0851000393, 0851000393, 0851000405, 0851000405, 0851000449, 0851000495, 0851000489, 0851000493, 0851000493, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000515, 0851000455, 0851000495, 0851000489, 0851000493, 0851000493, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000515, 0851000455, 0851000489, 0851000489, 0851000493, 0851000493, 0851000511, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000455, 0851000489, 0851000489, 0851000493, 0851000493, 0851000511, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000455, 0851000489, 0851000489, 0851000493, 0851000493, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000511, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000511, 0851000511, 0851000515, 0851000515, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000489, 0851000510, 0851000511, 0851 0851000531, 0851000540, 0851000542, 0851000543, 0851000543, 0851000548, 0851000548, 0851000549, 0851000562, 0851000609, 0851000619, 0851000650, 0851000657, 0851000658, 0851000658, 0851000678, 0851000678, 0851000678, 0851000678, 0851000678, 0851000678, 0851000678, 0851000140, 085100144, 085100144, 085100144, 085100145, F24418, F24749, F25534, GL/RNEG/68, ROHINI SECTOR 3: 0838000010, 0838000010, 0838000012, 0838000012, 0838000021, 0838000021, 0838000023, 0838000089, 0838000089, 0838000089, 0838000100, 0838000100, 0838000100, 0838000100, 0838000100, 0838000115, 08380000157, 08380000157, 0838000089, 0838000089, 0838000089, 0838000089, 0838000100, 0838000100, 0838000010, 08380000010, 08380000010, 083800000000000000000000000000000 0838000164, 0838000166, 0838000180, 0838000181, 0838000182, 0838000189, 0838000195, 0838000196, 0838000212, 0838000212, 0838000212, 0838000212, 0838000314, 083800534, 083800534, 083800534, 083800534, 083800536, 0838000536, 0838000212, 0838000312, 0938000312, 0938000312, 0938000312, 0938000312, 0938000312, 09380083800639, 083800646, 083800649, 083800650, 083800650, 083800694, 083800694, 083800718, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 083800747, 08380094, 0838009413400072, 413400075, 413400075, 413400075, 413400075, 4134000137, F922, TRI NAGAR-NEW DELHI: 1373000109, 1373000109, 1373000144, 1373000146, 1373000175, 1373000189, 1373000231, 137300077, 137300019, 137300019, 137300112, 137300112, 137300119, 137300119, 1373000172, 1373000189, 137 137300178, 137300186, 137300192, 137300193, F12249, F12549, F1 नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 07.09.2024 को सुबह 10.00 बजे KANJHAWALA: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No: 366, Khasra No:121 Old Lal Dora (1908-1909), Main Kanjhawala Cowk, Beside SBI Bank, Kanjhawala, Delhi - 110081. ROHINI SECTOR 8: Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, D-13/60, Sector - 7, Sector - 8, Dividing Road, Opposite Narula Medicos, New Delhi, Delhi - 110085 मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड

www.readwhere.com

पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा ।